



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2018/Ext. ]

CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 6, 2018  
(CHAITRA 16, 1940 SAKA )

### LEGISLATIVE SUPPLEMENT

#### CONTENTS

#### PAGES

#### PART-I ACT

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2018  
(HARYANA ACT NO. 10 OF 2018). 65

#### PART-II ORDINANCE

NIL

#### PART-III DELEGATED LEGISLATION

1. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 24 /संवि0 /अनु0309 /2018, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 – हरियाणा विधिक माप विज्ञान संगठन राज्य (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018. 243–244
2. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 25 /संवि0 /अनु0309 /2018, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 – हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018. 245–246
3. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 26 /संवि0 /अनु0309 /2018, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 – हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग क्षेत्रीय (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 247–248

#### PART-IV CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS

1. Corrigendum of Leg. 27/2017 dated 25.09.2017 of Shri Krishna AYUSH University Kurukshetra Act, 2016 (Haryana Act No. 25 of 2017) 9
2. Corrigendum of Leg. 37/2017 dated 5th December, 2017 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017 (34 of 2017). 10

**PART - I****HARYANA GOVERNMENT****LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT****Notification**

The 6th April, 2018

**No. Leg. 13/2018.**— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 22nd March, 2018 and is hereby published for general information:-

**HARYANA ACT NO. 10 OF 2018****THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2018****AN****ACT**

*further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- |   |  |
|---|--|
| <b>1.</b> This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2018   | Short title.                                     |
| <b>2.</b> In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 21 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-<br>“22 IILM University Gurugram”. | Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006. |

KULDIP JAIN,  
Secretary to Government Haryana,  
Law and Legislative Department.